

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(सितम्बर 2017)

सफाई की शिकायतों के निराकरण में भी प्रदेश में अक्वल बना अम्बिकापुर

शहर में हो रही सफाई या उसमें लापरवाही इसे लेकर शहरवासियों ने शिकायत दर्ज कराने में जगारूकता दिखाई है निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर कुछ संतुष्ट दिखे तो कुछ ने नाराजगी जताते हुए फोटो के साथ शिकायत दर्ज कराई इन सब की मिली जुली एन्टी की वजह से अम्बिकापुर निगम आज पुरे प्रदेश में 2445 शिकायतों का निराकरण कर स्वच्छता रैंकिंग में अक्वल स्थान पर है भारत सरकार ने देश के 1567 शहरों की सूची जारी की है इसमें प्रदेश के वे शहर शामिल हैं जिन्हें सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए प्रस्तावित किया था स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में शामिल शहरों की सफाई व्यवस्था की शिकायतों और सुझाव देने के लिए एसबीएम एप का प्रचार प्रसार किया जाना है एप में दर्ज शिकायतों का निराकरण करने के बाद स्थान की फोटो खींचकर भेजना है दर्ज शिकायतों और निराकरण के आधार पर शहर को अंक दिया जाएगा

नगर निगम ने बनारस रोड से हटाया अतिक्रमण

सोमवार को निगम आयुक्त के निर्देश पर बनारस रोड में सडक किनारे संचालित स्थाई ठेला गुमटियों पर उडनदस्ता दल द्वारा कारवाई की गई निगम के अधिकारियों ने सडक से सटकर संचालित गुमटियों को पीछे की तरफ स्थापित करने के साथ ही बांस बल्ली के सहारे संचालित स्थाई गुमटियों पर अतिक्रमण हटाने की कारवाई की गई दरअसल नगर निगम द्वारा ठेला व गुमटी संचालकों के लिए वेडिंग व नो वेडिंग जोन का निर्धारण किया गया है व उन्हें सडक से हटाकर अपने अस्थाई ठेले संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर

सम्पर्क हेतु नंबर –

निदान 1100 –

सफाई, पानी, सड़क बत्ती, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संबंधित शिकायत दर्ज करवाने संपर्क करे.

कार्यालय का पता – नगर पालिक निगम प्रशासनिक भवन, केदारपुर पानी टंकी
अम्बिकापुर (छ.ग.)